## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF JAL SHAKTI DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION

## LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 4485 ANSWERED ON 27/03/2025

#### WORKS DONE UNDER JJM IN RAJASTHAN

#### †4485. DR. MANNA LAL RAWAT:

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

- (a) the details of the works being done under the Jal Jeevan Mission (JJM) in Rajasthan, districtwise;
- (b) the number of households ensured to be provided with tap water supply under the said mission so far in Rajasthan;
- (c) whether the Government has received any complaints of bribery and corruption under the said mission in Rajasthan; and
- (d) if so, the details thereof along with the irregularities, bribery and corruption cases from 2018 to 2023?

#### ANSWER

#### MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI

(SHRI V. SOMANNA)

(a) and (b) Since August 2019, Government of India is implementing Jal Jeevan Mission (JJM), in partnership with States/ UTs including Rajasthan, to make provision of tap water supply to every rural household of the country. Drinking Water is a state subject, and hence, the responsibility of planning, approval, implementation, operation, and maintenance of drinking water supply schemes, including those under the JJM, lies with State/UT Governments. The Government of India supports the states by providing technical and financial assistance.

As reported by the state government of Rajasthan on JJM IMIS, on 15.08.2019, only 11.68 lakh (10.84%) rural households had tap water connections. Since then, around 48.60 lakh additional rural households have been provided with tap water connections under JJM. Thus, as on 24.03.2025, out of 107.75 lakh rural households in state, the provision of tap water supply is available to approximately 60.29 lakh (55.95%) rural households. The district-wise details of households covered with tap water connections in Rajasthan, as on 24.03.2025, is at **Annex-I**.

(c) and (d) State government of Rajasthan has reported that it has received complaints of bribery and corruption under JJM in state. The state government has also informed that it is closely monitoring the implementation of JJM to ensure transparency and efficiency. The details regarding irregularities, bribery and corruption, as informed by state government, is at Annex-II.

\*\*\*\*

Annexure referred in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred Question no.4485 for reply on 27.03.2025

S.No.	District	Total rural HHs	Rural HHs with connections 15.08.20	as on	Rural HHs v water connecti 24.03.20	ons as on
		11115	No.	No. %		%
1	Ajmer	1,54,870	35,795	11.25	95,811	61.87
2	Alwar	2,51,884	49,841			61.53
3	Anupgarh	1,26,635	-			78.26
4	Balotra	2,13,127	-			60.14
5	Banswara	3,87,971	14,712	4.46	1,33,687	34.46
6	Baran	2,37,642	14,224	6.41	84,482	35.55
7	Barmer	2,73,250	21,469	5.39	51,973	19.02
8	Beawar	1,97,305	-	-	1,26,011	63.87
9	Bharatpur	2,14,551	8,715	2.25	1,29,553	60.38
10	Bhilwara	2,72,909	73,329	16.89	2,23,059	81.73
11	Bikaner	3,09,203	44,073	18.12	1,74,394	56.40
12	Bundi	1,92,414	13,046	6.95	69,918	36.34
13	Chittorgarh	2,93,992	27,830	9.78	84,382	28.70
14	Churu	3,00,702	27,404	9.28	2,02,557	67.36
15	Dausa	2,56,772	12,902	5.12	1,07,172	41.74
16	Deeg	1,76,382	-	-	44,472	25.21
17	Dholpur	1,81,980	6,009	6,0093.2084,5632,42,505		46.47
18	Didwana- Kuchaman	2,88,659	-			84.01
19	Dudu	66,021	-	-	63,705	96.49
20	Dungarpur	3,06,166	11,040	4.42	90,599	29.50
22	Ganganagar	1,84,311	15,173	5.12	1,68,025	91.16
23	Gangapurcity	1,52,177			89,077	58.54
24	Hanumangarh	2,92,448	77,784	26.80	2,50,373	85.61
25	Jaipur (Gramin)	4,46,671	93,739	17.65	2,68,966	60.22
26	Jaisalmer	1,22,958	2,442	2.35	53,007	43.11
27	Jalore	2,27,356	66,732	19.36	1,41,251	62.13
28	Jhalawar	2,60,395	18,248	7.50	1,83,352	70.41
29	Jhunjhunu	2,72,583	59,874	18.13 1,39,66		51.24
30	Jodhpur (Gramin)	3,34,301	28,007	7.49	1,92,672	57.63
21	Karauli	1,67,877	14,855	6.93	1,06,574	63.48
31	Kekri	1,08,274	-	-	53,262	49.19
32	Khairthal- Tijara	1,46,391	-	-	91,930	62.80
33	Kota	1,61,896	11,016	5.62	75,766	46.80
34	Kotputli- Behror	2,05,754	-	-	1,18,187	57.44
35	Nagaur	3,05,772	86,629	16.92	1,91,912	62.76

S.No.	District	Total rural HHs	Rural HHs with connections 15.08.201	as on	Rural HHs with tap water connections as on 24.03.2025		
		11115	No.	%	No.	%	
36	Neem Ka Thana	1,89,403	-	-	1,22,899	64.89	
37	Pali	3,05,724	1,12,881	31.22	2,49,224	81.52	
38	Phalodi	1,12,461			39,471	35.10	
39	Pratapgarh	1,70,006	6,017	3.41	54,618	32.13	
40	Rajsamand	2,03,337	65,598	30.65	1,32,567	65.20	
41	Salumbar	1,32,977	-	-	56,151	42.23	
42	Sanchore	1,58,066	-	-	69,780	44.15	
43	Sawai Madhopur	1,42,887	17,740	7.56	90,999	63.69	
44	Shahpura	1,55,431	-	-	1,49,934	96.46	
45	Sikar	2,69,130	43,633	12.36	1,51,849	56.44	
46	Sirohi	1,87,110	42,542	24.67	1,08,310	57.89	
47	Tonk	2,20,784	9,311	4.19	1,42,027	64.33	
48	Udaipur	4,34,920	41,521	7.72	1,45,956	33.56	
	Total	1,07,74,835	11,68,553	11.69	60,28,903	55.95	

Source: JJM IMIS

### Annexure-II

# Annexure referred in reply to part (d) of Lok Sabha Unstarred Question no.4485 for reply on 27.03.2025 विभागीय जॉच के जल जीवन मिशन से संबंधित प्रकरणो में निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों की सूची (स्थिति दिनांक 15.02.2025 )

			<u></u>	<u> </u>				
क	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा	पुष्टि दिनांक	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की
सं						माननीय न्यायालय से प्राप्त	दिनाक	गई कार्रवाई
						स्थगन का विवरण		
1	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, जन	जल जीवन मिशन के अंतर्गत	शासन उप सचिव,	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक			श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा एवं श्री पुरूषोतम
		रुवा० अभि० विभाग	जारी कार्यादेशो के निष्पादन में		विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।	उक्त निलम्बन आदेश के		मीणा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन
		परियोजना खण्ड सरदारशहर	पद का दुरूपयोग करते हुए जल	विभाग, जयपुर के		विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय,		दिनांक 21.11.2022 द्वारा आरोप पत्र जारी
			जीवन मिशन जैसी महती	आदेश दिनांक		जोधपुर से दिनांक 26.5.2022		किए जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक
	श्री पुरूषोतम मीणा	सहायक अभियन्ता, O&M,	परियोजना के उदेश्यो पर	20.5.2022		को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
		PMC, PHED, सरदारशहर	जानबूझकर प्रतिकूल प्रभाव					
			डालने एवं विभागीय नियमो की					
			पालना नहीं कर पदीप कर्तव्यो			श्री पुरूषोतम मीणा द्वारा उक्त		
			के निर्वहन में घोर			निलम्बन आदेश के विरूद्व		
			अनुशासनहीनता कारित किए			माननीय उच्च न्यायालय,		
			जाने बाबत् ।			जोधपुर से दिनांक 31.5.2022		
						को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		
2	श्री धर्मेन्द्र यादव,	अधिशाषी अभियन्ता	ग्रामीण खण्ड एनसीआर–प्रथम,	शासन उप सचिव,	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक	श्री धर्मेन्द्र यादव, अधिशाषी		श्री धर्मेन्द्र यादव के विरुद्व कार्मिक
			अलवर में जारी 33 निविदाओं के	जन रुवा. अभि.	विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	अभियन्ता हारा निलम्बन आदेश के		(क-3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक
			संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर			संबंध में राजस्थान सिविल सेवा		20.05.2024 द्वारा सीसीए नियम-16 के अंतर्गत
			वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य	आदेश दिनांक		अपील अधिकरण, जयपुर से		आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच
			with the second state of t	23.01.2023		आदेश दिनांक 16.5.2023 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया		कार्मिक (क−3⁄जॉच) विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
			प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल,			स्थर्गन आदश प्राप्त ।कथा गया है।		310041017 61
			जयपुर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट			01		
			अनुसार HDPE पाईपो के नियम					
			विरूद्व खरीद करने, रू.					
			1,27,29,784 /- का अनियमित					
			भुगतान करने, फाईव स्टार					
			एनर्जी सेविंग सबमर्सिबल मोटर					
			पम्प सैटो से अत्यधिक कम					
			गुणवत्ता के पम्प सैट की खरीद					
			कर राशि रू. ४५,५३,१०५ /- का					
			अनियमित भुगतान करने,					
			अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अपने					
			ही स्तर पर अपने अधीनस्थ को					
			स्वयं का तकनीकी सहायक					
			नियम विरूद्व नियुक्त करने,					
			RTPP ACT 2012 एवं 2013 के					
			नियमो का उल्लंघन करने जैसी					
			गंभीर अनियमितताओं बाबत् ।					
			गगार आगयागतताला बाबत् ।					
	I							

क         कर्मचारी का नाम         पद         विषय         नित्तम्बन दितंक         विषेष विषण         संसोधत अधिकारी हात         पुष्टि         मुख्य अपियता (प्राप्तात)           3         भी योगेव सिंग, अपियता, अपियता, भी रीपेर बुमार चौधरी, तत्कालीन करिठ अपियता, भी दोपेंस बुमार चौधरी, तत्कालीन करिठ अपियता, भी युधिष्ठर मोण,         तत्कालीन करिठ अपियता, तत्कालीन करिठ अपियता, स्वंभ करिं अनेमिंत किंग को काने के 203203         प्राप्त प्रजन्म में सावमित द आरंग विनाक कारंग विनाम कारंग विनाक कारंग विनाम कारंग विनाम कारंग विनाक कारंग वारंग कारंग वारंग कारंग वारंग कारंग वारंग कारंग वारंग कारंग कारंग वारंग कारंग कारंग वारंग का	) कार्यालय द्वारा की
3       श्री योगेच्द सिंह, अभियत्ता, से व्यवर पम डाउस से विधानसमा प्रवेद युद्द के 13 प्राप्त (द वीपया) प्रवेद यूद्द के 13 प्राप्त (द वीपया) से वूदूद दू के 13 प्राप्त (द वीपया) की जत योजना में विना अनुमींदी जाते के राज की जत योजना में विना अनुमींदी जाते था दिवाक को जत योजना में दिवा अनुमींती जाते योजना के तत्कालीन कनिष्ठ अभियत्ता, तत्कालीन कनिष्ठ अभियत्ता, तत्काली कविष्य को प्रवेद ती ताति कनिष्ठ के 600 प्रवेद वा सानिक कर तकनीकी पांतुडलाईन के विपति जाकर प्रवेद वा सानिक कर तकनीकी पांतुडलाईन के विपति जाकर प्रवेद वा सानिक कर तकनीकी पांतुहा याता किया के कार्या वित्ताक तिकान के प्रवेदान प्रविहति याते कराये ते ताती कराने के रात्वान प्रविहति याते कराये त वाते कराने के रात्वान प्रविहति याते कराये त्वान तकनीकी त्यीवृति के प्रतावा प्रविहति याते कराये त्वान तकनीकी त्यीवृति के प्रताव प्रविहति याते करेया त्वा तकनीकी त्यीवृति के प्रताव प्रविहति याति करेया त्वा तत्वा कानो क प्रवेद ताते तिकाने के द्वावा तत्वनीक त्यावहते के प्रविहति तत्वी काने के प्रयाप प्रविहति ताति करते कुप तकनीकी त्यीवृति के प्रताव प्रवितित तुख्य अभिपत्ता के प्रवेद ताते तिका करे कुप्र तकनीकी त्यीवृति के प्रताव प्रवेति ता त्वा करे तुप्य तकनीकी त्यीवृति के प्रताव प्रवेति ता त्वा करे तुप्य तकने की स्वापारां के वित्र प्रवेत के प्रवेत ताते तिका करे कुप्य याते तिका के करेया वे ताते तत्वा के प्रवेत के प्रवेत याते तत्व तिका रोक्वति तत्व तिका के के प्रवेत याते तत्व तिका के कुप्य भार सिंह ता द्वावते करित्व तत्व तत्व तिका रोक्वति तत्व तिका रेयुवति तत्व तिका रेयुवते तत्व तिका रेयुवते तत्व तिका रेयुवते तत्व तिका रेयुवते तत्व तिका रेयुवते तत्व तिका रेयुवते तत्व त्व त्व प्रवेत करा कर्व प्रवेत करा तत्व त्व त्व त्व त्व त्व तत्व त्व त्व त्व त्व त्व तत्व त्व त्व त्व त्व तत्व त्व त्	वाई
भी रीपेय तुमार सोधरी,       अभियत्ता,       पर्वेवर पम, वाउस से विपातसमा जा, पर्वे वाठमों, गिभाग, उपयुर के       आरेग कि पा, उपयुर के       आरेग कि पा, उपयुर के       आरेग कि पा, जा, पर्वेवा कि प्रमा को के       आरेग कि पा, जा, पर्वेवा कि प्रमा के       आरंग कि पा, जा, पर्वेवा कि प्रमा के       आरंग कि पा, जा, पर्वेवा के       आरंग कि पा, जा, पर्वेता के       आरंग कि पा, जा, पर्वेवा के       आरंग कि पा, जा, पर्वेता के       आरंग कि पा, जा, पर्वेा के       आरंग कि पा के       अरंग कि पा, जा, पर्वे       अरंग कि पा, जा, पर्वे       आरंग कि पा, जा, पर्वेता के       आरंग कि पा, जा, पर्वेता के       आरंग कि पा, जा, पर्वे के       आरंग कि पा के       आरंग कि पा के       अरंग क	
श्री रीपेश कुमार चोधरी,       तत्कालीन सहायक अभियत्ता       केत वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       यिवाय देवा       सैंब वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       यिवाय देवा       सैंब वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       यिवाय देवा       सैंब वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       यिवाय देवा       सैंब वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       यिवाय देवा       सैंब वृद्ध के 13 मान एवं काणियां       ये 18 20 20 3       आरोग के रित्र-ब्रा क्या करी       आरोग के रित्र-ब्रा के रित्र-ब्रा मान प्रवालिक दिभाग को       ये 18 20 20 3       आरोग के रित्र-ब्रा के रित्र-ब्रा मान प्रवालिक दिभाग को       प्रवाल कि तिक प्रवा मान के प्रवाल कि राज करा के राज करा के राज करा       प्रविद्य करा राज करा राज करा राज करा राज करा राज करा राज करा       प्रविद्य करा राज करा राज करा       प्रविद्य करा राज करा       प्रविद्य करा राज करा       प्रविद्य करा राज करा राज करा       प्रविद्य करा       प्रवर करा राज करा       प्रवर करा <th></th>	
श्री दीपेश कुमार घोधरी,       तकालीन सहायक अभियत्ता       को जब योजना में किंग अनुमंह       आदेश के दिरुद्ध मानमिय उच्च प्यावस, अयपुर से दिनंक 130.1023 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।       चुके है।         4       श्री दिपिन जैन       अर्थीयण अभियत्ता, वृत जवरपुर (यर्तमान में सेयानियुत)       जल जीवन मिशन को पाइडनाहन के विपरीत जाकर पाइडनाहन के विपरीत जाकर पाइडनाहन के विपरीत जिकरा के पाइडनाहन के विपरीत जाकर पाइडनाहन के विपरीत जाकर पाइडनाहन के विपरीत जिकरा के जन रवा. अभि: 11 मंजिता विन्दिन के दिगांक 10.1023 को स्टे आदेश प्राप्त हाय तिपायन जादेश दिमाल 16.05.2023 के संबंध में राजस्थान संस्थात प्राप्त किंग कराते के अनुरोंव प्रयास किंग मये तथा मुख्य अभियत्ता (उन वीयन पांक कराते के अनुरोंव प्रयास किंग मये तथा मुख्य अभियत्ता (उन वीयन में करोती परीवृत्ि जाती कराने के प्रयास किंग मये तथा मुख्य अभियत्ता (उन वीयन मंत्र करोकी स्वीवृत्वि जाती कराने के प्रयास किया याजना के वित्तमेख राज्य सरकार पर प्रवित्तीय भार बजने के संबंध में राजस्थान सिंचित देखा अपनेत अविकरण, जयपुर से आदेश दिनांक 23.08.2023 द्वारा स्थान आदेश तिंग जिया गया है।       भूकरण में श्री विरि (किंग) ज्या क्या अविकरण, जयपुर से आदेश दिनांक 23.08.2023 द्वारा स्थान आदेश तियत्ता किंग गये वा से साथानी का सुप्रा किये गये का संपायना का सुप्रा किये या तकनोकी स्वीवृत्ति या तकनोकी स्वीवृत्ति वा से करने प्रयास अत्ते ति मुख्य अभियत्ता के स्वान अत्ति सहाय कालित या वुक्त करनेकी स्वीकृति वाती करनेकी स्वीकृति वाती करने के प्रसास अत्ते वा स्वान, मंत्र युरायग       भा ने दा स्वान करा करोती स्वीवृत्ति के प्रसास अत्ते वा सुछ अभियत्ता के स्वान का स्वाया करा के स्व या से का के स्वाया का त्या श्रेय का को स्वाया का सुप्र किया करते स्वाया का सुप्र का या करा का प्रया किये गया का स्वाय की त्या हा       भा के हा करा कराने करी स्वाय का स्वाय करा तका त्या करा करा का स्वाय कर सा तता तकरा करा का स्वाय करा तता तकरा करा करा करा करा ता स्वा करा	
श्री युधिषिट मीणा,     तक्कालीन कनिष्ठ अभियत्ता,     0H3R, मिर्मित किये, जाने के रवे     28.03.203     "चयायतय, प्रवपुर से दिनांक मिर्माक के संबंध कारीत अनियमितता हेतु       4     श्री यिपिन जेन     अधीक्षण अभियत्ता, जुत उदयपुर (वर्तमान में संयानिपूत)     जत्कालीन कनिष्ठ अभियत्ता, जिंदेवर्ग के रूप गाहजाईन के यिपरिंग जाकर प्रवेहवा के यिदेवर्ग के रूप प्रवेहवा को यादाजाईन के यिपरिंग जाकर प्रवेहवा को यादाजाईन के यायता अगि, यिमाग, जयपुर के प्रवेहवा को यादाजाईन के यायता अगि, यिमाग, जयपुर के प्रवेहवा को यादाजा के यिदेवर्ग के रूप प्रवेहवा को वरायों के तिविर्धन के रूप प्रवेहवा को यादाजा कि याये विया स्विया प्रयात किये गये तथा मुख्य अभियत्ता (जल जीवन मिंगन) को प्रवाह कियो गये तथा योजना के यिवस्त में राज्य प्रवित कर तकनीकी स्वीकृति को प्रयात किये गये तथा योजना के यिवस्त में राज्य को त्वा करनोकी स्वीकृति को प्रवास को रात्त कराग के प्रयात किये गये तथा योजना के यिवस्त में राज्य पात तकया थी जेन द्वारा जाते तथा थी जेन द्वारा वत्वनीकी स्वीकृति के प्रताय भी जेन द्वारा अतियत मुख्य अभियत्ता के प्रयात के साथ को त्वा द्वारा के साथ को त्वा द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रताय भी उने द्वारा अतियत मुख्य अभियत्ता के प्रयात के यात्रा किया गये। तथा विरात गया के प्रताय भी जेन द्वारा अतियत मुख्य अभियत्ता के प्रयात के प्रवाय करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रताय भी उने द्वारा अतियत सुख्य अभियत्ता के प्रयात करी करिय नाये। त्वा कराने के प्रयात किये गये। त्वा करात्त का की जेन द्वारा अतियत सुख्य अभियत्ता के प्रताय भी उने द्वारा अत्रीति कर प्रवाम किये गये। त्वा करात्त करात्त करात्त करात्त के प्रयात अत्रीति करात्त का त्वतनीकी स्वीकृति वाती करात का त्वतना कि यात्त करात करात्त तात्त करात्त का क्या अत्रीत कर तकनीकी स्वीकृति के प्रवाय प्रता करी द्वाय अत्रीत कर तकनीकी स्वीकृति के प्रताय अत्रीत कर तकनीकी स्वीकृति वात्री करात का तुव्य व के स्वाय भी उन द्वारा     भाज महा के प्रवाह करी के प्रवा कर तकनीकी स्वीकृते के प्रवाय करात्त करा करात का त्य मा किया या के स्वाय में करा का तुव्य करा कर का मा के जुव्य कर करात्त करा करा का करात करा करा करात का करा करा	प्रस्तावित किए जा
श्री युधिष्ठिर मणा,       तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, वृत जुदयपुर, (वर्तमान में संयानिवृत)       जल जीवन निशन की गाइडलाईन के विपरीत जाक गाइडलाईन के विपरीत जाक प्रतेदरस को शामिल कर तकनीकी संयोक्त का तिक्र के प्रतास कि भार्य के प्रतास को प्रतास कि कर तकनीकी संयोक्त प्रयास किये गये तथा नुरुष अभियन्ता (जल नीक स्ताव) अवद्वेष प्रयास किये गये तथा नुरुष अभियन्ता (जल नीक स्ताव) प्रति कर तकनीकी संयोक्त का लजनीकी स्योक्ति जा कराने के प्रसास किये गये तकनीकी स्योक्ति का तकनीकी स्योक्ति जाने तथा थी जेन हाग अतिवित्त मुख्य अभियत्ता कि कर तकनीकी संयोक्त का लजनीकी संयोक्त का लजनीकी स्योक्ति जाने तथा थी जेन हाग अतिवित्त मुख्य अभियत्ता का संसास की ये गये तकनीकी स्योक्ति के प्रतास का तकनीकी स्योक्ति का ने तकनीकी स्योक्ति के प्रतास किये गये तकनोकी स्योक्ति के प्रसास कर साय सरकार पर वित्तीय भार बढाने के संयान कर हुए सरकाय में स्वास किये गये। सरकाय का तकनीकी स्योक्ति के प्रतास किये गये। अतिवित्त मुख्य अभियत्ता के प्रयास कर करीकी स्योक्ति के प्रसास किये गये। अतिवित मुख्य अभियत्ता कर दुए सरकाम के तकनीकी स्योक्ति के प्रतास का से तकनीकी स्योक्ति के प्रतास का तकनीकी स्योक्ति के प्रसास कर्ता कर तकनीकी स्योक्ति के प्रतास किये गये। अतिवत मुख्य अभियत्ता करते कु स्तास कर तकनीकी स्योक्ति के प्रसास कर्ता कराने के प्रयास किये गये। अतिवत मुख्य अभियत्ता करते कु स्तास करात तकनीकी स्योक्ति के प्रसास कराने के स्वाय करते कु स्तास का उत्तम के प्रयान करते कु स्तास करात तकनीकी स्योक्ति के प्रसास करते हुए संतकनीक स्योक्ति के प्रसास करते हुए संतकना कर स्वाय संतकरान के प्रयास किये गये। संतकन के प्रयास किये गये। संतक साय करिय कु के संतक प्रयान कि प्रयान के स्वाय करते कु के साय करते कर स्वाय करते के स्वाय करते के स्वाय करते के स्वाय करते के स्वाय करते के स्वाय करते के प्रया कर कर कर करते के स्वाय करते के स्वाय करते के स्वाय करते के प्रया कर करते के स्वाय करते के प्रया कर करते कर साय करते के प्रया कर करते कर साय करते कर साय करते कर कर करते कर साय करते कर साय करते कर साय करते कर कर करते कर साय करते कर कर करते कर साय करते कर स	
भी युधिषिटर मीणा,     तत्कालीन कनिण्ठ अभियन्ता,     जल     जीवन     भिशन की     किया है।       4     श्री यिपिन जेन     अधीक्षण अभियन्ता, कृत उदययुप (वर्तमान में संवानिवृत)     जल     जीवन     भिशन की     प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक जाहडलाईन के विपरीत जाकर 11 मजिता बिल्डिंग के प्रयापने प्रतेद्वस को शामिल कर तकनीकी रवीकृति जारी करवाने के अनुषींव प्रयापत किये गये तथा नुष्ट्रंव अभियन्ता (जल जीवन में स्वानिवृत)     प्रकरण ने श्री विपि अभियत्ता (निजम्बन)     श्री विपिन जैन, अधीक्षण अभियत्ता हारा तितम्बन अर्थे दिवांक 16.05.2023 कर संबंध में राजरपान तिर्वा कराने करवाने की रवीकृति जरी करवाने तथा नुष्ट्रंव अभियत्ता (जल जीवन में सामा (जल जीवन में सामा) को फजी पत्र हारा तकनीकी रवीकृति के प्रस्ताव प्रवित कर तकनीकी रवीकृति जाने तथा श्री जन हारा लकनीकी रवीकृति के प्रस्ताव प्रवित कर प्रव किये गये तथा योतना क यिवल्य से राज्य सरकार पर वितीय भार बढाने के संसाय मंग्री के नुष्ठ हारा तरिव हुए भा उनके प्रवतम का उपयाग करते हुए तकनीकी रवीकृति के प्रस्ताव भीव कराने कप्रयास किये गये।     श्रित कर प्रकरा किया काने तथा श्री जेन हारा अतिरिव मुख्य अभियन्ता के प्रयुक्ति जाने तथा श्री जेन हारा अतिरिव मुख्य अपियन्त के प्रयास किये गये।     श्री किए जा चुके है।	
4       श्री यिपिन जेन       अयीक्षण अभियत्ता, युत       जल जीयन मिशन की ग्राइडलाईन के विपरीत जाकर ग्राइस उप सचिय, जन स्था. अमि. विमाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।       श्री यिपिन जेन, अयीक्षण       2062023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जिन, ज्यापुर के आदेश दिनांक 1605.2023         प्रवित प्रयान किये गये तथा       जयाते करवाने के अनुवित के प्रयान किये गये तथा       त्रित कर तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ता       तिवंक 1605.2023       प्रकरण में श्री विपि जियम-16 के आदेश दिनांक 23.08.2023 द्वारा स्था अपिय तथा भी सीपिए नियम-16 के जारे करने के प्रयान किये गये तथा         प्रवित अपति पर वितीय मार खाने के प्रयात किये गये तथा       जे करने के प्रयात किये गये तथा       प्रकरण पर वितीय मार खाने के उपाकृति के प्रस्ता       प्रया है।         प्रवित कर तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेति तथा तथा       जारी करने के प्रयात किये गये तथा       प्रवत कर तिक विवेक प्रकृति के प्रसाक प्रकरण       प्रया है।         प्रवित कर तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव के तथा       जाने तथा श्री जेन द्वारा ने के प्रया के प्रकरण       प्रवत कर तकनीकी स्वीकृति के प्रयान के प्रत वा       प्रत नही प्रत नहा       प्रवत निंक विवक से राज्य के प्रत कर तकनीकी स्वीकृति जा करते हुए         प्रवित कर तकनीकी स्वीकृति के प्रसाव के प्रवत करते कर तकनीकी स्वीकृति जाते करा के प्रया का तित उतक कृत्य       प्रवत कर तकनीकी स्वीकृति जा कर कर कर कर कर कर कर वर कर कर कर कर	
प्रदयपुर (सर्तमान में सेवानिवृत्त) माइडलाईन के विपरीत जारु (सर्तमान में सेवानिवृत्त) मं संखिला बिल्डिंग के 600 प्रते रस कर प्रति जिंधा मिल रूप कर कनेकी प्रते प्रयास किये गये तथा मुख्य अविपन्दा (तल जीवन मियन) के फर्जी करानों के अनुषित प्रयास किये गये तथा मुख्य अविपन्दा (तल जीवन मियन) के फर्जी पत्र द्वारा तकनेकी स्वीवृत्ति के प्रत्तात वारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के वित्रम्ब से राज्य सरकार पर वित्रीय भार बबने के संसंध में राजस्थान संवित्रत संवा अपीत जारी कराने के प्रयास करा तकनेकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास करा स्वर्गन करते हुए भी उनके प्रतनाम का उपयोग करते हुए पत्रकनीकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास किये गये तकनेकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास किये गये तकनेकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास किये गये तकनेकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास किये गये। अतिरात नुष्ठ अभियना के पर यहन करे तकनेकी स्वीवृत्ति जारी कराने के प्रयास किये गये। और से द्वारा कारित उबत कृत्य अनुशासनहीनता, गभीर दुरावरण	
(यर्तमान में सेयानिवृत) 11 मंजिला बिल्डिंग के 800 यिमाग, जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2023 युत के (क्र-3/जॉय) विमान, जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2023 के संबंध में राजस्थान से सीसीए नियम-16 की अनुवित जारी करवाने के अनुवित प्रयास किये गये तथा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा सकी रावेव के सत्वय में राजस्थान सिथित सेया अपील अधिकरण, जयपुर से आदेश जिन्म के उप्रदेश के प्रतास किये गये विम के प्रवत्त के प्रतास किये गये विषा प्रवत्त कर तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताय संवित कर तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताय संरक्षा रावे का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा स्वान के प्रवत्त पर वितीय भार बढाने की संस्तानों का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरात नुख्य अभियन्ता के पत्र वुवन के पत्र नाम का उपयोग करते हुए सारा अपित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रसाय भी जन करते हुए सारा असित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जन हाए मा जरते हुए आजि करने के प्रया किये प्रया अभियत्ता क स्वान करते हुए भी जनक ये जुवन के पत्र माम का उपयोग के देखा जरे के प्रया अभियत्त कर तकनीकी स्वीकृति जारी करान के प्रया प्रवित्त नुख्य अभियन्ता के पत्र पुष्य अभियत्त कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रसाय अभियत्ता के पत्र प्रया के प्रया पर नहीं रहते हुए भी उननके पत्र नुर्व याभित्त कर तकनीकी स्वीकृति जारी करान के प्रया पर नहीं रहते हुए भी जनके युवकृति जिंग करते हुए जानक के पत्र प्रवत्त में का करते हुए जानक के पत्र पर कि पर तकनीकी स्वीकृति जारी तरा रावेव खूव्य अभ्यत्ता के प्रया करते उनक युववर्य अभियत्ता के प्रया अधित कर तकनीकी स्वीकृति जारी स्वा गये। श्री जेन द्वारा अं के प्रया अभियत्ता के प्रवाल कर जकनीकी स्वीकृति जये खुक्त अभाव अपने वित्त रावेव खूव्य अभ्य का जयता अं जित्त रावेव क्र प्रवत्तम का उपया का के प्रवत्त करता अं जया अं जेन द्वारा अं जित्त रावेक जये अं या अं जेन द्वारा अं जित्त रावेव क्र जयना अं जात त्व क्रव्य अपने करता का जत उत्त हुव्य अन्य अं जया अं जित्त रावेव क्र जया क्रव्य अन्य अं जया अं का त्य का त्व क्र जया क्रि का जया का के रावेव क्र जया क्रव्य जया अं क्रि	
प्रतेट्स की शामिल कर तकनीकी सरीकृति जारी करवाने की अनुषित प्रयास किये गये तथा मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिरान) को फर्जी पत्र हारा तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय प्रेषित कर तकनीकी स्पीकृजि जारी कराने के प्रयास किये गये तथा थोजना के विजय सरकार पर यित्तीय भार बजने की संभावनों का सुजन किये जाने तथा श्री जैन हारा अतिवित मुख्य अभियन्ता के प्रद पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय भी जने हारा अतिवित मुख्य अभियन्ता के प्रद पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय भी जने हारा अतिवित मुख्य अभियन्ता के प्रद पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय भी जन हारा करित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुरावरण	। स्वा. अभि. विभाग,
सिवित सिवा अभी ते सिवी से प्रभाग के प्रयास किये गये तथा सुख्य अभियत्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रसाव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारे कराते के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ोन की स्तीन के प्रयास किये गये तथा औ जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी जनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रसाव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारे तथा श्री जन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी जनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रसाव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति	
भागुरी के प्रभाव अनुष्ट्रीत प्रथा किये गये तथा मुख्य अभियत्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा स्वया के प्रजी कर प्रक्री की रवीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनों का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पत् पर नहीं रहते हुए तकनीकी रवीकृति के प्रस्ताव भंषित कर तकनीकी रवीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जेन द्वारा कारित ज्वत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुरायरण	
मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा तकनीकी स्यीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्यीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विजनभ से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बडाने की संभावनों का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए तकनीकी स्यीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्यीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उता कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुरावरण	अतगत आराप पत्र
मिशन) को फर्जी पत्र द्वारा तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय प्रेषित कर तकनीकी स्पीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनों का सृजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पद पर नहीं एहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्पीकृति के प्रस्ताय प्रेषित कर तकनीकी स्पीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
तकनीकी स्यीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्यीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनो का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्यीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्यीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुरावरण	
जारी कराने के प्रयास किये गये लाथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनो का सृजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरितत मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
तथा योजना के विलम्ब से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनो का सृजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्थीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्थीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
सरकार पर वित्तीय भार बढाने की संभावनो का सुजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियत्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
की संभावनो का सृजन किये जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
जाने तथा श्री जैन द्वारा अतिरिवत मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेपित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
पर नहीं रहते हुए भी उनके पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
पदनाम का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
जारी कराने के प्रयास किये गये। श्री जैन द्वारा कारित उवत कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
श्री जैन द्वारा कारित उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचरण	
एवं पदीय दुरूपयोग करने	
बाबत्।	

क	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा	पुष्टि	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की
सं						माननीय न्यायालय से प्राप्त	दिनांक	गई कार्रवाई
						स्थगन का विवरण		
5	श्री रामलाल मीणा	तत्कालीन अधिशाषी	जल योजना भांकरोदा पर श्री	शासन उप सचिव,	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक	श्री रामलाल मीणा द्वारा उक्त		श्री रामलाल मीना, अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्व
		अभियन्ता, खण्ड आमेट	भगवती इरिगेशन, जयपुर द्वारा	जन स्वा. अभि.	विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	निलम्बन आदेश के विरुद्व		कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.9.2023 से
			उत्पादित 90mm व 75mm HDPE	विभाग, जयपुर के		माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर		आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच
			पाईप उपयोग में लिए गए। इन			से दिनांक 03.11.2023 को स्टे आदेश प्राप्त किया है।		कार्मिक विभाग के स्तर प्रकियाधीन है।
			दोनो साईजो के पाईपो का	5.7.2023		आदरा प्राप्ताकया ठा		
			फैवट्री इंस्पेवशन तत्कालीन					
			अधिशाषी अभियन्ता, खंड आमेट					
			श्री रामलाल मीना द्वारा दिनांक					
			9.7.2022 को किया गया, पाईपो					
			की ईनवाईस दिनांक 6.8.2022 को					
			जारी की गई, दिनांक 25.8.2022					
			को भुगतान हेतु प्रस्तावित 3 रनिंग बिल में उक्त पाईपो का					
			१९९१ विक्र में उपरी पाइया का १०% भुगतान सत्यापित किया गया					
			जबकि श्री भगवती इरिगेशन,					
			जयपुर द्वारा पत्र दिनांक					
			29.9.2022 से उक्त पाईपो का					
			उत्पादन प्रक्रियाधीन है बाबत्					
			अनुबन्धक को सूचित किया गया					
			तथा पाईपो के फैक्ट्री इंस्पेक्शन					
			हेतु भी अनुरोध किया गया ।					
			जबकि तत्कालीन अधिशाषी					
			अभियन्ता, खण्ड आमेट श्री					
			रामलाल मीना द्वारा उक्त 90mm					
			व 75mm HDPE पाईपो की QAP					
			मैसर्स श्री भगवती इरिगेशन,					
			जयपुर के पक्ष में दिनांक					
			30.9.2022 को अनुमोदित की गई।					
б	श्री रवि बवेजा	तत्कालीन अधिशाषी	नगर खण्ड श्रीगंगानगर में	शासन उप सचिव,	प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक			श्री रवि बवेजा, अधिशाषी अभियन्ता के
		अभियन्ता, नगर खण्ड	अनियमितता, निम्न गुणवत्ता पाई	जन स्वा. अभि.	विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।			विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक
		श्रीगंगानगर ।	जाने के संबंध में ।	विभाग, जयपुर के				26.09.2023 द्वारा सीसीए निमय—16 के
				आदेश दिनांक				अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है,
				1.08.2023				जिसकी जॉच कार्मिक विभाग के स्तर पर
								प्रकियाधीन है।

क	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा	पुष्टि	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की
सं						माननीय न्यायालय से प्राप्त	दिनांक	गई कार्रवाई
						स्थगन का विवरण		
7	श्री विशाल सक्सेना	तत्कालीन अधिशाषी			प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक			श्री विशाल सक्सेना के विरूद्व कार्मिक
		अभियन्ता, खण्ड शाहपुरा,	कार्य पूर्णता पत्र दिनांक	जन स्वा. अभि.	विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।			विभाग के ज्ञापन दिनांक 19.10.2023 से
		जिला जयपुर	28.12.2021 से मैसर्स गणपति	विभाग, जयपुर के				आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, , जिसकी
			ट्यूबवेल कम्पनी, शाहपुरा को	आदेश दिनांक				जॉच कार्मिक (क−3⁄जॉच) विँभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
			जारी प्रमाण पत्र को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा Fake	6.9.2023				प्राक्याधान ह
			इटरनशनल लिमिटड द्वारा Fake and Fabricated बताया गया है।					
			बाव radicaled बताया गया है। जिसका श्री सक्सेना द्वारा फर्जी					
			सत्यापन किया गया है।					
8	श्री नरेश सिंह	 तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता		14.12.2023				श्री नरेश सिंह के विरुद्व कार्मिक कार्मिक
	121 1221 1210		खण्ड सलूम्बर, जिला उदयपुर में पाई गई अनियमितता, निम्न	17.12.2023				(क-3/जॉच) विभाग के ज्ञापन दिनांक
			गुणवत्ता की जॉच के संबंध में ।					08.02.2024 द्वारा सीसीए नियम—16 के अंतर्गत
								आरोप पत्र जारी किए जा चुके है, जिसकी जॉच
								कार्मिक (क−3∕जॉच) विभाग के स्तर पर प्रकियाधीन है।
								אושייומויז סן
9	श्री सिद्धार्थ मीणा,	तत्कालीन अधिशाषी	माननीय मंत्री महोदय, जन		प्रकरण का अनुसंधान प्रशासनिक	∙ମା ାସର୍କାୟ ମାମା ୯୳ ମା	29.02.2024	<ul> <li>श्री सिद्धार्थ मीणा, श्री हेमन्त कुमार</li> </ul>
		अभियंता, खण्ड महुवा हाल	रवास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,	जन स्वा. अभि.	विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	हेमन्त कुमार मीणा द्वारा		मीणा, श्री नानगराम बैरवा एवं श्री
		अधिशाषी अभियंता, परियोजना, खण्ड करौली,	राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.02.2024 को विभाग की	विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक		निलम्बन आदेश के विरूद्व		धारासिंह मीणा के विरूद्व कार्मिक
		पारपाजना, खण्ड कराला,	गुणवत्ता नियंत्रण शाखा एवं	12.02.2024		माननीय न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।		विभाग के ज्ञापन दिनांक 6.12.2024 द्वारा सीसीए नियम–16
	श्री हेमन्त कुमार मीणा,	अधिशाषी अभियंता, खण्ड						0.12.2024 द्वारा सांसार नियन–10 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये
		महुवा	उच्च अधिकारियों के साथ जल			<ul> <li>श्री नानगराम बैरवा एवं श्री धारासिंह मीणा को कार्मिक</li> </ul>		जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक
			जीवन मिशन योजना पीपलखेडा,			विभाग के आदेश दिनांक		विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
	श्री नानगराम बैरवा,	सहायक अभियंता, उपखण्ड				9.01.2025 से निलम्बन से		
		महुवा,	निरीक्षण के दौरान पाई गई			बहाल किया गया है।		
	श्री धारासिंह मीणा,	तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता,	गंभीर अनियमितताओ बाबत् ।			<ul> <li>श्री महाराज सिंह गुर्जर को</li> </ul>		<ul> <li>श्री महाराज सिंह गुर्जर के विरुद्व</li> </ul>
	ત્રા ધારાણક માળા,	अनुभाग महुवा हाल कनिष्ठ				कार्मिक विभाग के आदेश		कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक
		अभियंता, अनुभाग मण्डावर,				दिनांक 20.09.2024 से		8.10.2024 से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है।
		उपखण्ड महवा				निलम्बन से बहाल किया		समाप्त किया गया ह
		Ŭ				गया है।		
	श्री महाराज सिंह गुर्जर,	तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता,						
		अनुभाग मण्डावर, हाल						
		कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग गहरू जाज्यान गहरू						
		महुवा, उपखण्ड महुवा						

सं     मानगीय चयात्राय से प्राप्त स्थान का विराज     िनांक     ग       10     भी योगेक मीणा एप खुण्ड दुरु जल प्राराय यायेला में 108 प्राप्त जताय रायछा यायेला में 108 प्राप्त जताय रायछा यायेला में 108 प्राप्त जताय रायछा पर्याप्त तदं यात्रक राय प्राप्त एप प्राप्त तदं (अनुमानित जागत ताणि रुपय 1081 करेंड कार्य भी) के कारो में कम गराउई पर पेयाजल तादंन विराज ताण विभागि भी करेंगा में गरा रायछा एप प्राप्त तदंन (अनुमानित जागत ताणि रुपय 1081 करेंड कार्य भी) के कारो में कम गराउई पर पेयाजल तादंन विराज ते कारा विभागि भी का मं के कारा में का में कु प्राप्त कर को ता में पुराप्त परा त्ये प्राप्त कर के वाजने की सिंकाय करा के डाजने की सिंकाय करा के दान के ततात की जीव के प्राय पुरा पत्र पह दारा मांकी सुराप्त करा के राजने की सुराप्त करा के राजने की सिंकाय करा के राजने की सुराप्त जा के ताजने की सार पाई के प्रार्थ प्रायंत का स्थान के स्वार प्रायंत से सिंका करा के राजन के ततात कि की मा मुख्य का के राजन की मा मुख्य का के राजना की सार पाई के सार पाई कर की का मा मुख्य का के राजने की सार पाई कर की के प्रायंत का से राप्त दान का की सार पाई कर की के प्रायंत पाई कर की के प्रायंत के ततात को की सार पाई कर की के प्रायंत सार पाई कर की का मा मुख्य का की सार मुख्य की के स्वार्य पाई कर की का का स्वात्त गर्द के आदि गरारार्ड में स्वात का सार के ततात की की मा मुख्य का की सार मुख्य की की सार मुख्य के की सार मुख्य के की सार मुख्य के की सार मुख्य की की सार मुख्य के की सार मुख्य की सार मुख्य की की सार मुख्य की की सिंक सार में कि अपिक्त मार में के अपिक्त मार को की के की सार मुख्य की की सिंक सार के कि कि के का मुद्य की की सिंक सार में कि की कि के की की सार में कि की के का में कि की कि का में कि की कि का में के की की में कि की कि का में कि की कि का में कि की कि का में के की की का में कि की की में की की की की सार में कि की की	11 (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की
10       सी पोरेस मोणा       तक तोवन मिलन पोउना के प्रांवत देखित में सिंग् पूर्व प्रांवत वीवत में प्रांवत वीवत में 105 प्राप्त कर रहा योग्य में 105 प्राप्त कर रहा या योजना कर रहा या विराप्त कर रहा या योजना के तरहा दिवाया कर रहा विराप्त कर रहा या योजना के तरहा दिवाया कर रहा विराप्त कर रहा विराप्त कर रहा या विराप्त कर रहा या याजना के तरहा यह प्राप्त कर रहा विराप्त कर रहा या विराप्त कर रहा या योजना के के तरहा यह प्राप्त कर रहा या विराप्त कर रहा या येजना के तरहा यह प्राप्त कर रहा या योजना कर ते रहा या याजना के तरहा यह प्राप्त कर रहा य विराप्त कर रहा य विराप्त कर रहा य विराप्त कर रहा य विराप्त कर रहा या योजना के तरहा यह प्राप्त कर तरा या याजना के तरहा यह रहा विराप्त कर रहा या योजना कर तथा या	गई कार्रवाई
जिस प्रयोध योजना में 168 ग्रांस पूर्व 159 आणियो तेतु उत्त्वा जदार्थ राख्य जाताय प्रस्क जाताय प्रमा जदार्थ राख्य जाताय प्रसक्त जदार्थ राख्य जाताय प्रदेश को कार्य के जातां विवर्ग तथा कि स्वय 1891 के जातां विवर्ग तथा कि स्वय विवर्ग तथा कि तथा के विवर्ग तथा कि तथा कि विवर्ग तथा कि तथा कि विवर्ग तथा कि तथा कि विवर्ग कि वितर्ग कि विवर्ग कि विवर्	णा एवं श्री हरिनारायण मीणा
श्री हरिनासयण मीणा करिय अधियसा, उपखण्ड जतायय, एवय यादव त्यातंन राउस एव पार्ट्य यादव त्यातंन प्राउस एव पार्ट्य वासंन (अनुस्तित त्यान तों स्पर्य ! अंड करोड कारों गो के कारों में कम मारुवई पर पेपजल साईंत विधाने त्या दिसींग अधियमा एव सवेरक हारा मितीमात कर ने रे हिरायसी के संखण एव यावेरान त्यान तेतु दिमारीय पंपडल वितरण जावंन को अपनाव कारों के संखण एव यावेरान त्यान तेतु दिमारीय पंपडल वितरण जावंन को अपनाव कारों के संखण एव यावेरान त्यान तेतु दिमारीय पंपडल वितरण जावंन को अपनाव कारों के संखण एव यावेरान त्यान तेतु दिमारीय पंपडल वितरण जावंन को अपनाव कारों के संखण एव यावेरान त्यान तेतु दिमारीय पंपडल वितरण जावंन को अपनाव कारों के संखण्य पंप पार्ट्य में जीव निया पंपडल अपनात कर तीय प्रायमित जाव विपार्ट अनुस्त दूरू नरेना रोड पर मेंठ पर पंचजल नाई न वन तारार्ट्य में बत्य मा याते गांह तियान त्याहे ने अंडित पाराठमें मे कॉन्ट वाली हु यावी जाने तथा कार्य के अनुस्तर का से 20 पुरापस तेत्र के असिम छार से वत्यममा 19 सिंटर बन्याई न कार्ड नी यात्र सन्वर्भ नाई नी राज सम्बन्ध नहीं होने तैसी गं सीय स्वारा आधी स्वार्ट पार्य से पायम ति ता नां देसी से स्वायम कारा अधीखण अधिया सन्वर्भ संत्र प्राय सम्बन्ध नहीं होने तैसी गं से प्रायम निता प्राय स्वात गांह (प्रेय क्यान तत्र के असिम छार से वत्यममा 19 सिंटर बन्याई न वार्ट प्राय ने स्वायम प्राय संत्र के असिम छार से वत्यममा 19 सिंटर बन्याम कार्य अधीखण अभियमाता (प्रायम) हारा प्राय संतर्भ संत्र प्राय के प्राय ते स्वायम गांह (प्राय कार्य के प्राय तत्या स्वायम प्राय के स्वार संतर्भ संत्र प्राय तत्या स्वायम प्राय संतर्भ संत्र प्राय संत्र संत्र संत्र संत्र संत्र संतर्भ संत्र संतर्भ संत्र संत्र संतर्भ संत्र संतर्भ संत्र संत	र्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक
श्री हरिमारायण मोणा कविष्ठ अपियला, उपखण्ड इ          श्री हरिमारायण मोणा       कविष्ठ अपियला, उपखण्ड इ       जलाय गाव गावि रुपये मारा हर्ष सर्व कराय मंदी मारा हर्ष सर्व कराय मंदी मारा हर्ष सर्व कराय मंदीमाराय कर गं र दिरायणी सेना मं मू-माणिआजे के तराव्य मंदीमाराय कर गं र दिरायणी सेना मं मू-माणिआजे के तराव्य मंदीमाराय कर याविष्ठात तरा हेत्रि योजना के जताद किये गये कारों का विष्ठात तरा हेत्रि योजना के तताद किये गये कारों का मारा हर्ष मंदे प्रारा मंगिका मुआयमा कर तेवा र प्रार्थकि योविष्ठा तरा हिंदे योजना के तताद किये गये कारों का मिरिष्ठाण दल द्वारा मंगिका मुआयमा कर तेवा र प्रार्थकि याविष्ठा तराई मंगे प्रार्थ याविष्ठा तराई मंगे प्रार्थ का मारा हे मारा हे मारा स्वार्थ का मारा हे मारा हे मारा मंगिका मुआयमा कर तेवा र प्रार्थकि मारा या स्वार्थ मंगी हर्ष पत्र की मंद्र विराण ततिक का या स्वार्थ मंगा रुप में उप तत्र के अपिय जता मंग्र मं सामा रूप में उप गति सामा प्रार्थ में तत्रमा मं सामा क्या से 200 प्राप्त मं सामा क्या से 200 प्राप्त मं सामा क्या से तराग मंगा सामा प्रार्थ मं कार्यसंग या यह सम्वार मं के सम्याग अभियाम नावा मात्र युं स्वार्थ मं सामा आपत ताया गाव रेष मं सामा आपत सामा प्रार्थ मारा स्वार्थ मं सामा मं सामा क्या स्वार्थ मंदी होने तैसी मं सामा आपत सामा प्रार्थ मारा मंगा हा मंगा मं सामा न्या सामय आपत ताया मंगी संग्री संवार मारा संग मं सामा कर मंती सामे संवार मं सामा प्रार्थ मं कार्य मं सामा कर मंती होने तैसी मं सामा मारा मंगी संवार सामा मंगी संग्र सामा मं सामा मारा मंगी संवार सामा मंगी संवार सामा मंगी संवार सामा मंगी संवार साम सामा मंगी संवार सामा मंगी संवार साम सामा मंगी संवा साम मंगी संवार साम साम साम साम साम संवार संवार मंगी संवार साम संवार साम साम साम संवार संवा मंगी संवार साम संवार संवा मंगी संवार साम संवार संवा मंगी संवार साम संवार संवा मंगी संवा साम संवा संवा संवा मंगी संवा साम संवा संवा संवा संवा मंगी संवा साम संवा संवा संवा मंगी संवा साम संवा संवा संवा संवा मंगी संवा साम संवा संवा संवा संवा संवा संवा संवा संवा संवा संवा संवा	गरा सीसीए नियम—16 के
दुद्       साउस एवं पहिंच लर्तन (अनुसाति जागत तारी रूपये 1991 क्रमांड कार्य में) के कार्यो 1991 क्रमांड कार्य में) के कार्यो में कम गराय द्वं पर पंजल नाहन विद्याने वितरण जिंते में पूर्यस्वित जान हुत् विभागीय पंयतन वितरण जा में हु येजना के तत्व किया ये बार्ज को शिकायत की लॉब में हु योजना के तत्व किया ये बार्ज को शिकायत की लॉब में हु योजना के तत्व किया ये बार्ज मिंकेषण तल हारा मौगत त्यांच पर्यार्ट भी तर्ज दे जानी हु पायी लाने तथा कार्य प्रधानित त्यांच पिरार्ट में अर्ट्य प्रधानित त्यांच पिरार्ट में अर्ट्य प्रधानित त्यांच पिरार्ट में अर्ट्य वार्ज प्रधा पर मंठे पर पंजलज नाहन कम गरार्ट में नाईन जानी हु पायी लाने तथा कार्य की माप पुडिस्का में अहित गार्ट्य में तक मारार्ट में नाईन कम गरार्ट में नाईन कार्य पायी लाने तथा कार्य की माप पुडिस्का में अहित गार्ट्य में से समान रूप से 390 एमएम संगत तकनीकी रुभ से करामम 150 मीटर जन्माई में कॉक्से लंकी मंदी तथा पंचलज वितरण तत्र के अतिम छोर से करामम 150 मीटर जन्माई में कॉसे गंगिर जन्मना (अतिरिवर पायाई में हु प्रध में) में पर जन्म गाइग वित त्यान्य नाई में कोई मी यात त्याच तांह गालव, अधोधण अन्ययान ताए प्रगर, आरं मार्ग	प पत्र जारी किये गये है,
(अनुमानित 'तमात 'राणि रूपये 1991 कार कार कार्य में) के कार्यो में काम गारराई पर पेयजल लाईन विधाने तथा विभागिय अभियमा एवं संविक द्वारा निर्माण प्यं य्यवितमत लाम सेतु विभागिय पेयजत की जॉब सेतु योजना के तत्तत किये गये बार्या तिकायत की जॉब सेतु योजना के तत्तत किये गये कार्या निरीक्षण दल द्वारा मांका मुद्ध्यमया कर तेयार प्रायमित रोब रिपोर्ट अनुसार दुदु तगेना रोड पर मांके पर फाजल लाईन कम गारराई में लाईत डाली हुई पत्री जाने तथा कार्या की पर घाई नई गारराई के अनुस्य नती होने, दुटु-मानपुरा सेड पर डाली गई दिसरा तत्रिया ने या वान तथा कार्या की पर घाई नई गारराई के अनुस्य नती होने, दुटु-मानपुरा सेड पर डाली गई दिसरा तत्रिया ने या वात तथा का ना या वात तथा मा ता की योने तथा पेयजल वित्रण तत्र के अतिम छोर से लगममा 150 मीटट लमाई में कोई नी जत सम्मम नही होने जेसी गं मायान दास गालय, अधीवण अभियमा (जतिया प्राय, मार) हाग	कार्मिक विभाग के स्तर पर
14.95% करोड़ कार्य में) के कार्य में कम मतरह पर पर प्रधवज ताहंन विछाने तथा दिमामीय अभियक्ता एव संवेयक हाथ निलीमत कर गैर दिरायची के संस्था एव व्यवितात लाग हेतु दिमामीय पेयजल वितरण लाईन को अनावश्यक रूप से डालने की अनावश्यक रूप से डालने की शिकायस की जॉब हेतु योजना के तहत किये गंब कार्यों का निरीषण दल हारा मौका मुआयना कर तैयार प्रधामित जॉब दियोर्ट अपूर्ण रोड पर मीठे पर पेजजल ताहंन कम गाराई में ताईन डाली हुई याची जाने तथा कार्य की माप युस्लिक में अठित गाराई मीके पर पाई गई गाराई के अनुरूप नहीं होने, हुदू-मालपुण तोई पर डाली नाई दितराण वतिका का व्यास लगमग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एएएम होना तकनीकी रूप से तकसंगात नहीं होने तथा पंजजल वितरण 150 मीटर लम्बाई में कोई नी जल सम्बन्ध नहीं होने जेली गंभीर अनियमितराए पाई गई तथा	1
में कम गारवाई पर पेयजल लाईन विछाने तथा विभागीय अभियामा एवं संयेदक डारा मिलीमगत कर गेर हिरायमी क्षेत्रों में पू-पाफिसाओं के संरक्षण एवं प्रविताल ताम हेतु विभागीय पेयजल वितरण जाईन को अमायश्यक रूप से डाजने की शिकायत की जींच हेतु योजना के ततत किये गये कार्या का निविषण दल डारा गोका न्दिविषण दल डारा गोका मुआयमा कर तैयार प्राथमित जॉंच रिपोरं अनुतार दुई नरेन रोंच पर गोकं पर पेजजल लाईन कम गारहां हैं नाहतेंह को जुड़ पायी जाने तथा कार्य की माप पुरितका में अकित गरराई मीके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने इंग्रिस्ट लायाई में समान रूप से 250 एसएस होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र कं अतिम छोर से तमभग 29 मीहर लम्पाई में कोई भी जल सच्चच नहीं होने तैसी गंभीर अनियमिताएं पाई गई एव	
विग्रेने तथा विषागीय अपियत्वा एवं स्वेदक डाय सिलीभगत कर गेर हिरायशी क्षेत्रों में पू-माफियाओं के संरक्षण एव व्यवितात लग उंच हेतु विगागिय पंयजल वितरण लाईन को संवायय रूप सं डालने की विषायत की जींच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल हारा मोका मुआयना कर तैयर प्राव्यमित यांव चिरों अनुसार दुद्द नरेना रोड पर मोके पर पंउजज लाईन वम पाडाई में लाईन डाली हुई यावी जाने तथा कार्य की माप पुष्तिका में अलित गाराई मोके पर पाई गई गाइडों के अनुस्प नहीं तोने, दुदू-मालयुग रोड पर डाती नाई वियतम तिविका का व्यस लगमग 1500 मीठर लन्याई में समान रूप से 250 एनएम तेत्र के अतिम छोर से तन्यनग ठाई गोर से सर्व-प्रात्य हाती तमीनी के परे से तर्कसंगत नहीं गोने तथा वैयजल वितरण तत्व स्वय्च नहीं होने जैसी गमीर अन्यमितताए पाई नहें एव	
एवं सोवेक डाया नितीमपत कर गेर रिरायमी के संरक्षण एव व्यवितगत लाग हेतु यिभागीय पेयजल पितरण लाईन को अनावश्यक रूप से डालने की शिकायत की जॉब हेतु योजना के ततत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल डाया मौका मुआपना कर वैयार प्राथमित जॉब रिपोर्ट अनुसार दुद्दू नरेना रोंड पर मौके पर पेउजजल लाईन कम गरपाई में लाइनेन डावी हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुसिसका में अकित गरपई मोके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू—मालयुप रोंड पर डालां गई विराय तेवका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 200 प्राप्स होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा प्रयजल विराय रात्मी रात्मि रात्म रात्मी होने उसी गमीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगपान रात्म गालय, आवीक्षा	
तेर रितप्रथगी क्षेत्रों में भू-माफियाओं के संरक्षण एवं व्यविरगत लाम हेतु यीभगीय पंपजत वितरण लाइंग को अतावश्यक रूप से डालंने की शिकायत की जॉब हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निर्मेक्षण दल द्वारा मांका मुआयना कर तैयार प्राथमित जॉब रियोर्ट अनुसार दूदु नरेना रोड पर मोंक पर पंपजज लाईन कम गठराई में लाईन डाली हुई पांची जाने त्वां कार्य की नाप पुषित्तका में अंकित गठराई मौके पर पाई गई गडराई के अनुरुष नहीं होने त्वां कार्य की नाप पुषितका में अंकित गठराई मौके पर पाई गई गडराई के अनुरुष नहीं होने त्वां येपजल लाइन के समाद रूप से 250 प्राप्त होना तकनीकी रूप से तकसाई में समान रूप से 250 प्राप्त होना तकनीकी रूप से तकसाई में कर्मना प्राप्त लिया पंपजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से तनगमा उठ नीटर लम्पाई में कोई भी जल साम्यक नहीं होने लेसी गंभीर अनियमितताए पाई गई एव श्री भगवान दास गालय, अधीक्षण	
पुगिष्ठियाओं के संरक्षण एवं व्यवितगरत लाभ हेंदु विभागेय पंचजत विरियण लाईन को अनायश्यक रूप से डालने की शिकायत की जींक हेंदु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीष्ठण दल हारा मौका मुआयना कर तैयार प्राधीसेत जींच रिपोर्ट अनुसार दुदु नरेना रोड पर नीके पर पेजजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पाची जाने तथा कार्य की मांग पुरिस्तका में अछित नहराई नोके पर पाई नई नहनाई के अनुरूप मही होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई यितरण तीका का व्यास लगमग 1500 मीटर लगाई में समान रूप से 250 एसएम होना हकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पंचजल विराण तंत्र के अतिम छोर से लगमग 250 मीटर लगमई में कोई में जीती गंभीर अनियमित्ताए पाई गई एव औ भगवान दास गालव, अधीक्षण	
व्यवितगत लाम हेतु यिगागीय पंचजल वितरण लाईन को अनगवरयक रूप से डालने की पिकायत की जींच हेतु योजना के तत्वत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल द्वारा मौका मुआयना कर तैयार प्राधनित रजींच रिपोर्ट अनुसर दूद नरेना रोड पर मौके पर पेजजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पांची जाने तथा कार्य की माप पुसितका में अकित गहराई मौके पर पाई गई मितराइ के अनुरूप नहीं होने, दूदू-सालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तत्विका का व्यास लाममा 500 मीटर लम्बाई में सत्तान रूप से तकस्मात नतीं होने काप पेउजल वितरण तंत्र के अतिम छोर से लगभग 530 मीटर लम्बाई में कोई मी जल सम्बय नहीं होने जैसी मंभावन दास गालव, अधीवण	
पंचाजन यितरण लाइन को अनायश्यक रूप से डालने की शिकायत की जींच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल द्वारा मौका नुआयन कर तैयार प्राथमित जींच रिपोर्ट अनुसार दुदू सरेना रोड पर मौके पर पंजजन लाइन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की मुद्द पायी जाने तथा कार्य की मुद्द पर पाई नई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दुदू—मालपुग रोड पर डाली नाई वितरण तत्रिका का व्यास लगभग 150 मीटर लम्पाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तकसंगत नहीं होने तथा पंचजक वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्पाई में कोई भी जल सम्बम्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताए पाई गई गुंह	
अनावश्यक रूप से डालने की शिकायत की जौंच हेंचु योजना के तहत किये गये कार्यों का निमिक्षण दल हारा मौका मुआयना कर तैयार प्राथमित जांच पिपोर्ट अनुसार दुदू नरेना रोड पर मौके पर पेजजल लाईन कम गठराई में लाईन डाली हुई यारी जाने तथा कार्य की माप पुष्तिरका में अंकित गठराई मौके यर पाई गई गठराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू—मालयुरा रोड पर डाली गई वितण्ण तत्रिका का व्यासा लगपना 1500 नियर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नतीं होने तथा येयकत वितण्ण तत्र के अंतिम छोर से लगमग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बच्च नहीं होने जेसी गमीर अनियमितताएं पाई गई एव श्री मगवान दास गावय, अधीकण	
शिकायत की जॉच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल हारा मौका मुआयना कर तैयार प्राथमित जॉच रिपोर्ट अनुसार दृढ़ नरेना रोड पर मौके पर पेजजन लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुरितका में अठित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दृद्दन्साअपुरा रोड पर डाली गई द्वित्तण ततिका का व्यात लगमग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से लगमग 150 मीटर लम्बाई में कोई नी जल सम्बच्च नहीं होने जेसी गमीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान वास मालव, अधीक्षण अभियता (अतिथित प्रारा) हारा	
के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल द्वारा मोका मुआपना कर तैयार प्राथमित जॉच रिपोर्ट अनुसार दूदू नरेना रोड पर मीके पर पेजजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुस्तिका में अकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूष पर पाई गई गहराई में के प्र चीते त्वा में दितरण संत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लग्वाई में समान रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लग्वाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताए पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण	
निर्मेक्षण दल द्वारा मोका मुआयना कर तैयार प्राथमित जॉव रिपोर्ट अनुसार दूदू नरेना रोड पर मौके पर पेजजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुस्लिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरुप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तकरंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एयं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रमार) हारा	
जॉव रिपोर्ट अनुसार दूढू नरेना रोड पर मोके पर पंजजल लाईन कम गठराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुस्तिका में अंकित गठराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूढू-मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पंयजल वितरण तत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान तास गालव, अधोक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रमार) हारा	
रोड पर मौके पर पेजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुरिसका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगमय 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अंतिरिवत प्रमार) द्वारा	
कम गहराई में लाईन डाली हुई पायी जाने तथा कार्य की माप पुरिस्तका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई यितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तकंसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालय, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
पायी जाने तथा कार्य की मांप पुस्तिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई यितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
पुस्तिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई पितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीषण अभियन्ता (अंतिरिवत प्रभार) द्वारा	
पर पाई गई गहराई के अनुरूप नहीं होने, दूदू-मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जेसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
नहीं होने, दूदू—मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
में समान रूप से 250 एमएम होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
होना तकनीकी रूप से तर्कसंगत नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
नहीं होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गांभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
जल सम्बन्ध नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
गंभीर अनियमितताएं पाई गई एवं श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
श्री भगवान दास गालव, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
अभियन्ता (अतिरिवत प्रभार) द्वारा	
जॉच दल को मौके पर क्षेत्र के	
लिए अनुमोदित द्वाइंग एवं	
डिजाईन उपलब्ध नहीं कराने हेतु	

क	कर्मचारी का नाम	पद	विषय	निलम्बन दिनांक	विशेष विवरण	संबंधित अधिकारी द्वारा	पुष्टि	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय द्वारा की
सं						माननीय न्यायालय से प्राप्त	दिनांक	गई कार्रवाई
						स्थगन का विवरण		
11	श्री जे.पी.गुप्ता	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (वर्तमान में सेवानिवृत)	खण्ड बालोतरा (बाडमेर), जन स्वा0 अभि0 विभाग के अधीन प्रगतिरत	07.05.2024		श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, श्री मकेश मानववाल श्री सत्तील माथर		<ul> <li>श्री सुनील माथुर, श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री रामसिंह मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग</li> </ul>
		(4(11) 1 (41) 2()	कार्यों के कियान्वयन में			मुकेश मानतवाल, श्री सुनील माथुर श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री		आ रामासंह माणा क विरुद्ध कामिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 4.12.2024 से सीसीए
	श्री जगदीश सिंह	अधिशाषी अभियन्ता	अनियमितताओं की जांच के दौरान			रामसिंह मीणा द्वारा निलम्बन		नियम–16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी
	राजपुरोहित,		जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाई गई कमियों के संबंध में			आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त		किये जा चुके है, जिसकी जॉच कार्मिक
	श्री मुकेश मानतवाल	अधिशाषी अभियन्ता	जतगत पाइ गइ कामया क संबंध म मुख्य अभियंता (प्रशासन) द्वारा			न्यायालय स स्थनन आदरा प्राप्त किया गया है।		विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
			पुस्तुत जांच रिपोर्ट एवं प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी अनुसार गंभीर					
	श्री सुनील माथुर	सहायक अभियन्ता	विभाग की टिप्पणी अनुसार गंभीर अनियमितता बाबत् ।					<ul> <li>श्री सार्थ सिंदोलिया के विरुद्व कार्मिक</li> </ul>
	श्री दीपक कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	जानपानतता पाषत् ।					विभाग के आदेश दिनांक 4.12.2024 से प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया है।
	_							प्रस्ताव स्तर पर समाप्त किया गया छ।
	श्री रामसिंह मीणा	कनिष्ठ अभियंता						
	श्री सार्थ सिंदोलिया	 कनिष्ठ अभियंता						
12	श्री अनिल कच्छावा	तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता	जलदाय विभाग में जल जीवन	कार्मिक विभाग के				
			मिशन के अंतर्गत ब्लॉक सांवला में विभिन्न ग्रामो में उच्च जलाशय,	आदेश दिनांक 15.01.2025				
			विभिन्म ग्रीमी में उच्च जलशिय, खला कआं निर्माण पाईप लाईन	15.01.2025				
			खुला कुआं निर्माण, पाईप लाईन बिछाने के कार्य में अनियमितता					
			बाबत् ।					
			(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज					
			अपराध संख्या 299/2024)					